

Workshops/Seminars Conducted during the year 2022-23

Department of Hindi



स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग एवं शोध केन्द्र
महाराजा कॉलेज (सरकारी स्वायत्त)

एरणाकुलम
भारतीय साहित्य प्रतिष्ठान, कोच्ची

त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी

फणीश्वरनाथ रेणु: आज
2022 सितंबर 28, 29 और 30
मलयालम सभागार,
महाराजा कॉलेज

मित्रों,

श्री फणीश्वरनाथ रेणु हिन्दी के अद्भुत कथाकार थे जिन्होंने भारत के ग्रामांचलों के चुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुन्दरता और कुरूपता को शब्दों में बांधकर यथार्थवादी साहित्य को नया रूप प्रदान किया था। रेणु की जन्मशती के सिलसिले में महाराजा सरकारी स्वायत्त कॉलेज एरणाकुलम और भारतीय साहित्य प्रतिष्ठान कोच्ची के संयुक्त तत्वावधान में तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 2022 सितंबर 28, 29 और 30 को संपन्न होनेवाली है। संगोष्ठी का विषय है - 'फणीश्वरनाथ रेणु: आज'। आजकल पत्रिका के संपादक एवं विख्यात रचनाकार श्री राकेशरेणु जी संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए वीजभाषण देंगे। प्रस्तुत संगोष्ठी में आप सबका सहयोग सादर आमंत्रित है।

डॉ. मधु वासुदेवन
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
महाराजा कॉलेज
एरणाकुलम

डॉ. सजी आर. कुरुप
संयोजक
महाराजा कॉलेज, एरणाकुलम

मुख्य विषय विशेषज्ञ

- डॉ. राकेश रेणु, संपादक, आजकल पत्रिका, दिल्ली
डॉ. एन. मोहनन, भारतीय साहित्य प्रतिष्ठान, कोच्ची
डॉ. के. वनजा, भारतीय साहित्य प्रतिष्ठान, कोच्ची
डॉ. प्रमोद कोवप्रत, कालिकट विश्वविद्यालय,
कालिकट
डॉ. एस.आर. जयश्री, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग केरल
विश्वविद्यालय, तिरुवनन्तपुरम
डॉ. हेरमन पी. जे, केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनन्तपुरम
डॉ. वासन्ती जे, सरकारी ब्रण्णन कॉलेज, तलशशरी
डॉ. प्रीती, कण्णूर विश्वविद्यालय, कण्णूर
डॉ. प्रतिभा पी. के, एस.एन.एम सरकारी महाविद्यालय,
पट्टाडम्बी
डॉ. दीपक के. आर, केरल विश्वविद्यालय,
तिरुवनन्तपुरम
डॉ. राजन टि. के, केरल विश्वविद्यालय,
तिरुवनन्तपुरम

महाराजा कॉलेज

महाराजा कॉलेज केरल का एकमात्र सरकारी स्वायत्त कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। केरल के सबसे प्राचीन कॉलेजों में एक है महाराजा कॉलेज, जो कोच्ची के इरणाकुलम में एकड में व्याप्त है। महान्मा गाँधी विश्वविद्यालय के इस कॉलेज में अठारह विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर शिक्षा एवं शोधकार्य हो रहा है। तीन हजार से ज्यादा छात्र-छात्राएँ पढ रहे हैं। यह महाविद्यालय केरल के शैक्षिक क्षेत्र में सबसे आगे है।

हिन्दी विभाग

महाराजा कॉलेज का हिन्दी विभाग केरल के सबसे नामी विभागों में एक है, जो पिछले पचास सालों से केरल के हिन्दी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यहाँ बी.ए. हिन्दी और एम.ए. हिन्दी की शिक्षा चल रही है। यह विभाग महान्मा गाँधी विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा शोध केन्द्र है। यहाँ तीस से ज्यादा शोध निदेशक काम कर रहे हैं और सैकड़ों शोधछात्र भी हैं। केरल के हिन्दी क्षेत्र के कई नामी अध्यापक इस विभाग के योगदान हैं।